

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बाँका-२

१४/१३/२४

पत्रांक- 2037 / बाँका,

दिनांक- 07/08/2024.

प्रेषक :- कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बाँका-२

सेवा में,

सहायक, पोस्टमास्टर/शाखा प्रबन्धक,
डाकघर/ बैंक शाखा/बाँका-२।

विषय:- राष्ट्रीय बचत-पत्र, किसान विकास पत्र 3/5 वर्षीक सावधि जमा खाता/बैंक गारान्टी के सत्यापन के संबंध में।

महाशय,

आपके डाकघर/बैंक से निविदा कार्य हेतु श्री/पे0. राजेश कुमार यादव

के नाम से राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/3-5 वर्षीय सावधिक जमा पासबुक /बैंक गारान्टी निर्गत किया गया है तथा दिनांक को कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल बाँका-२ (Executive Engineer, RWD Works Division Banka-2) के पदनाम के प्रतिज्ञिप्त (Pledged) हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

SI No.	Registration No.	Description of NSC/KVP 3-5 Years T.D./Banka Guarantee	Deposited Amount	Pledged DATE
①	FD Mo-	35580300009574	1554000/-	7/8/24
②	" "	35580300009575	2175500/-	7/8/24

अनुरोध है कि उपर्युक्त विवरणी के दर्शाये जमा राशि (Executive Engineer, RWD Works Division Banka-2) के पदनाम के प्रतिज्ञिप्त (Pledged) हैं। तथा प्रतिज्ञिप्त का सत्यापन कर यथाशीघ्र वापस करने की कृपा की जाय।

अनु0:- राष्ट्रीय बचत-पत्र, किसान विकास पत्र 3/5 वर्षीक सावधि जमा खाता/बैंक गारान्टी की छाया प्रति संलग्न।


विष्णुसमाजन

7/8/24

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, बाँका-२

7/8/24

Pledge on EE RWD Loan Div- Banker



आजय कुमार यादव श्री महेश्वर प्रसाद यादव HOUSE NO 28 NEAR RAJENDRA NAGAR S14112 INDIA	सावधि खाता नं./ FD A/c No 35580300009574 सावधि सूचना नं./ FD Advice No FDR0708243458 कस्टमर आईडी नं./ Customer ID No ZHX076930 व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 35580200000159 शाखा का नाम/Branch Name BANKABIHAR
--	---

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	ABAPY3533B	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
1554000	07-08-2024	7.25	0 Months 399 Days	10-09-2025	1681042

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिवर्ष में वर्धित है। 2. स्वतः नवीकरण कालावधि i) यदि अवधि अवधि से कम हो तो 1 वर्ष के ब्याज दर पर अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण होना जारी रखेगा अन्यथा 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। ii) यदि अवधि अवधि से कम हो तो 1 वर्ष के ब्याज दर पर अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण होना जारी रखेगा अन्यथा 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। 3. फॉर्म 15G और 15H के निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाएगा। 4. निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए 15G/15H जारी किया जाएगा। 5. फॉर्म 15G/15H के निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाएगा। 6. प्रीमियर विलड्रॉल क्लॉज i) प्रीमियर विलड्रॉल क्लॉज के तहत जमा राशि को नवीकरण करने पर 1% ब्याज का प्रस्ताव है। ii) प्रीमियर विलड्रॉल क्लॉज के तहत जमा राशि को नवीकरण करने पर 1% ब्याज का प्रस्ताव है। 7. प्रीमियर विलड्रॉल क्लॉज के तहत जमा राशि को नवीकरण करने पर 1% ब्याज का प्रस्ताव है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum 2. Automatic Renewal Clause i) For Deposits issued for a period of 1 year and above: Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year: Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/15H (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more). 6. Premature Withdrawal Clause i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank. 7. In case of 'NON-CALLABLE DEPOSIT' - Premature withdrawal not allowed.
--	--

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledge on EE RWD : Wam Div. Bank - 2



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

जमा प्रति सूचना / Deposit Confirmation Advice

AJAY KUMAR YADAV	सावधि खाता क्र./ FD A/c No	35580300009575
SO MAHESHWAR PRASAD YADAV	सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR0708243512
HOUSE NO 28 NEAR RAJENDRA NAGAR	कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	ZHX076930
814112	व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	35580200000159
INDIA	शाखा का नाम/Branch Name	BANKABIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD (RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	ABAPY3533B	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
2175500	07-08-2024	7.25	0 Months 399 Days	10-09-2025	2353350

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

- व्याज दर प्रतिवर्ष में वर्धित है
- स्वतः नवीकरण क्लॉज
- यदि अवधि अनुदेश न दिये हो तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देव नारीय पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा
- आई निर्देश न दिये जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देव नारीय पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इन्तर्ही अवधि के लिए किया जाएगा
- फॉर्म 15 जी और 15एच निर्देश विनाश के लिए है
- निर्देश व्यक्तिगत द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी, 15 एच या 15एच निर्देश प्राप्त होना आवश्यक है। अन्यथा सीमा पर कर कटौती की जाएगी
- जर्मन व क्रेडिट रॉयल नामों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा
- परिमित अवधि क्लॉज
- 1 करोड़ से कम की जमा राशि को समयपूर्व बंद करने पर 1% बंद का प्रावधान है अर्थात् एक अवधि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा
- 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि को समयपूर्व बंद करने पर 1.5% बंद का प्रावधान है अर्थात् एक अवधि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1.5% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा
- 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आंतरण के लिए कम से कम 31 दिनों पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए
- नॉन कॉलबल जमा के अंतर्गत परिपक्वता पूर्व आंतरण को अनुमति नहीं है

- Rate of Interest is in percentage per annum
- Automatic Renewal Clause
- i) For Deposits issued for a period of 1 year and above Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise
- ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise
- Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only
- A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted
- Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
- Premature Withdrawal Clause
- i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank
- ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty, i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank
- In case of NON-CALLABLE DEPOSIT - Premature withdrawal not allowed

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



प्लान - E.T. KWD WORKS DIV BARODA-2
बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

AJAY KUMAR YADAV SO MAHESHWAR PRASAD YADAV HOUSE NO 28 NEAR RAJENDRA NAGAR 314112 INDIA		सावधि खाता क्र./ FD A/c No 35580300008972
		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR0801242918
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No ZHX076930
		टयवहार खाता / Linked Operative a/c 35580200000159
		शाखा का नाम/Branch Name BANKABIHAR
योजना / Scheme BARODA TIRANGA PLUS DEPOSIT	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.		
पैन नंबर / PAN No. ABAPY3533B		
परिचालन पद्धति / Mode of Operation SELF	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
लियन चिह्नित / Lien Marked Y		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
957000	08-01-2024	7.15	0 Months 399 Days	10-02-2025	1033923

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज 3. यदि अवधि अवधि न दिया हो तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए भी गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा 4. कोई निदेश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए भी गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा 5. फॉर्म 15 जी और 15एच निर्धारित निवासी खातों के लिए है 6. निवृत्ति कर्मियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी और 15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए अन्यथा स्वतः पर कर कटौती की जाएगी 7. फॉर्म एवं कटौत दरिद्र कारिरियों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा 8. परिपक्वता आहरण क्लॉज 9. 1 करोड़ से कम की जमा राशि को समयपूर्व बंद करने पर 1% बंद का प्रावधान है अर्थात् ऐसे जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा 10. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि को समयपूर्व बंद करने पर 1.5% बंद का प्रावधान है अर्थात् ऐसे जमा राशि पर बैंक में रखी जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्ड दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा 11. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आहरण के लिए जमा राशि का आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक का सूचना दी जानी चाहिए 12. गैर कॉलबल जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है	1. Rate of Interest is in percentage per annum 2. Automatic Renewal Clause 3. For Deposits issued for a period of 1 year and above. Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise 4. For Deposits issued for a period of less than 1 year. Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise 5. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only 6. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted 7. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 8. Premature Withdrawal Clause 9. Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank 10. Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank 11. In case of NON-CALLABLE DEPOSIT - Premature withdrawal not allowed
--	---

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

For 16/5